



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1934 (श0)
(सं0 पटना 48) पटना, बुधवार, 2 जनवरी 2013

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना
26 दिसम्बर 2012

सं0 17 स्था0 (पुनर्गठन)—211/2011—2059—बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा-4 तथा बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम संख्या-5 के आलोक में राज्य के पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, नवादा तथा बांका जिला में पूर्व से चालू सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालनों को पुनर्गठित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित व्यवस्था अधिसूचना निर्गत की तिथि से लागू की जाती है :-

2. (i) बन्दोबस्त कार्यालय, पटना, भोजपुर, दरभंगा, गया तथा भागलपुर (केवल बांका जिला के सन्दर्भ में) द्वारा अन्तिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख संबंधित जिलों के अभिलेखागार में हस्तारित कर दिये जायेंगे।
- (ii) संबंधित जिले के अपर समाहर्ता अपने नियंत्रण में बन्दोबस्त कार्यालय के अभिलेखों का संधारण एवं जिला अभिलेखागार में अन्तिम रूप से प्रकाशित भू-अभिलेखों को जमा करने की कार्यवाई सुनिश्चित करायेंगे।
- (iii) बी0 टी0 ऐक्ट की धारा-106, 108 एवं 108 A के अन्तर्गत लम्बित वादों में भू-धारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य को आधुनिक तकनीक से सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम की प्रक्रिया में नए सिरे से संदर्भित किया जा सकेगा।
- (iv) बन्दोबस्त कार्यालय में पदस्थापित अराजपत्रित कर्मचारी को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप द्वारा नये बन्दोबस्त कार्यालय में स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जाएगा।
- (v) बन्दोबस्त कार्यालय में मात्र 01 अभिलेखापाल एवं 01 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को रखा जाना है, जो अभिलेखों का संधारण करेंगे। चतुर्थ वर्ग में आवश्यकतानुसार जिला समाहरणालय से दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा भी प्राप्त की जा सकती है।
- (vi) संबंधित बन्दोबस्त कार्यालय के लिए सदर अंचल के अंचलाधिकारी को सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय का कार्यभार सौंपा जाएगा ताकि वेतनादि मद में राशि की निकासी में असुविधा न हो।

- (vii) बन्दोबस्त कार्यालय में संधारित भू-अभिलेखों के हस्तांतरण के कार्य हेतु पदस्थापित कर्मचारियों के वेतनादि का भुगतान पूर्व की भाँति बजट मुख्यशीर्ष - 2029 - भू - राजस्व - समूह शीर्ष - राज्य योजना - लघु शीर्ष - 102-सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उपशीर्ष-0101-सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्यों का पुनरीक्षण विपत्र कोड पी0-2029001020101 से किया जाए।
- (viii) निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा "समाहर्त्ता" सह "बन्दोबस्त पदाधिकारी" के पदनाम से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।
- (ix) पुनर्गठन के उपरान्त संबंधित जिला बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 से आच्छादित किए जाएँगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार शुक्ल,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 48-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>